

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातन कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी,जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

एनसीएल/ज.स./प्रे.वि./2017-18/498

दिनांक - 23.12.17

प्रेस विज्ञप्ति

अब एनसीएल कर्मियों को वाट्सऐप पर मिलेंगी कंपनी की खबरें और सूचनाएं

कंपनी के नए सीएमडी श्री पी.के. सिन्हा ने किया नई व्यवस्था का शुभारंभ

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के अधिकारियों-कर्मचारियों को अब उनके मोबाइल फोन पर कंपनी की सभी खबरें और आधिकारिक सूचनाएं मिल पाएंगी। एनसीएल के नवागत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री प्रभात कुमार सिन्हा ने शनिवार को इस नई व्यवस्था का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने वाट्सऐप ब्रॉडकास्ट मैसेज देते हुए कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में वाट्सऐप सूचनाओं के आदान-प्रदान का सबसे त्वरित और सशक्त माध्यम है। ऐसे में इस नई पहल से कंपनी के समस्त कर्मियों और हितग्राहियों को उनके मोबाइल फोन पर एनसीएल एनसीएल से जुड़ी खबरें एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं फौरन मिलेंगी। उन्होंने अपने इस वाट्सऐप संदेश के जरिये अपील की कि हितग्राही एनसीएल की पल-पल की हलचल के लिए इस ऑफिशियल वाट्सऐप नंबर से जुड़ें।

‘एनसीएल कनेक्ट’ के नाम से शुरू किए गए इस वाट्सऐप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिये कंपनी कर्मियों को यह सुविधा मिल पाएगी। कंपनी के आधिकारिक वाट्सऐप नंबर 9406711632 के जरिये कंपनी की खबरें और आधिकारिक सूचनाएं एनसीएल कर्मियों तक पहुंचाई जाएंगी।

एनसीएल के जनसम्पर्क (पीआर) विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले इस वाट्सऐप ब्रॉडकास्ट मेसेज व्यवस्था का लाभ फिलहाल कंपनी के लगभग 1500 अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इसे जल्द ही कंपनी के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस वाट्सऐप ग्रुप में सभी एनसीएल कर्मियों को जोड़े जाने पश्चात कंपनी के वाह्य हितग्राहियों (External stakeholders) को भी इससे जोड़ा जाएगा तथा उन तक भी कंपनी की सभी खबरें एवं आधिकारिक सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी।

हैं।

फोटो कैप्शन : एनसीएल के वाट्सऐप ब्रॉडकास्ट ग्रुप का शुभारंभ करते कंपनी के सीएमडी श्री पी.के. सिन्हा।

(जनसम्पर्क अधिकारी)